

84
21/9



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

84
21/9

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 104]

नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 4, 1984/श्रावण 13, 1906

No. 104]

NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 4, 1984/SRAVANA 13, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate pagling is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वाणिज्य मंत्रालय

आयात व्यापार नियंत्रण

सार्वजनिक सूचना सं. : 40—आईटीसी(पीएन)/84

नई दिल्ली, 4 अगस्त, 1984

विषय:— 1984-85 के लिए कच्चे काजू के संबंध में आयात और वितरण
नीति।

मि०सं० आईपीसी/25/2/84:— वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक
सूचना सं० 18-आईटी सी (पीएन)/84, दिनांक 12 अप्रैल, 1984 के
अधीन प्रकाशित अप्रैल, 1984—मार्च, 1985 के लिए आयात एवं निर्यात
नीति की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

2. 1984-85 के लिए आयात नीति के अधीन वास्तविक अपयोक्ताओं
(औद्योगिक), निर्यात सदन/व्यापार सदन और भारतीय काजू निगम द्वारा
कच्चे काजू का आयात निर्धारित प्रावधानों के अनुसार किया जा सकता
है।

3. पात्र आयातक आयात के माल की खरीद पूरा करने के सात दिनों
के भीतर लिखित रूप से आयातक द्वारा किए गए आयात के पूर्ण विवरण

की सूचना भारतीय काजू निगम लि०, कोचीन को निगम द्वारा निर्धारित
प्रपत्र में भेजेगा, चाहे औपचारिक संविदा पर हस्ताक्षर करना बाकी ही क्यों
न हों। आयात के माल की खरीद पूरा होने के 15 दिनों के भीतर
उक्त सूचना के साथ काजू निगम द्वारा पंजीकरण के लिए प्रदान की गई
संविदा और इसकी एक फोटो-स्टेट कापी भेजी जाएगी। आयातक निगम को
आयात के माल की खरीद की सूचना के साथ-साथ खरीद की लागत-
बीमा-भाड़ा मूल्य का 1/2 प्रतिशत पंजीकरण खर्च भी डिमाण्ड ड्राफ्ट द्वारा
भेजेगा।

4. आयातक द्वारा निकासी की गयी मात्रा को दर्जाने वाले प्राधिकरण
पत्र के साथ आयातक से प्राप्त पावती के सात दिन के भीतर निगम संविदा
को पंजीकृत करेगा। सीमा-शुल्क प्राधिकारी ऐसे प्राधिकार-पत्र के आधार पर
माल की रिहाई के अनुमति देगा।

5. भारतीय काजू निगम द्वारा अपने स्वयं के लेखों में किए गए आया-
तित कच्चे काजू के संबंध में, वास्तविक अपयोक्ताओं को काजू की मात्रा
प्रदान करना भारतीय काजू निगम की इच्छा पर होगी।

प्रकाश चन्द जैन, मुख्य नियंत्रक, आयात एवं निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE

IMPORT TRADE CONTROL

PUBLIC NOTICE NO. 40-ITC (PN)|84

New Delhi, the 4th August, 1984

Subject : Import and distribution policy in respect of raw cashewnuts for 1984-85.

File No. IPC|25|2|84.—Attention is invited to the Import & Export Policy for April 1984—March 1985 (Vol. I), published under the Ministry of Commerce Public Notice No. 18-ITC (PN)|84 dated the 12th April, 1984.

2. Under the import policy for 1984-85, raw cashewnuts can be imported by Actual Users (Industrial), Export Houses|Trading House, and the Cashew Corporation of India Limited, in accordance with the provisions laid down.

3. The eligible importer shall, within seven days from the conclusion of import purchase intimate in writing to the Cashew Corporation of India Limited, Cochin in the form prescribed by the Corporation,

the details of purchase concluded by the importer even pending signing of a formal contract. The said intimation will be followed up within a fortnight from the conclusion of import purchase, by the original contract with a photostate copy for registration by the Cashew Corporation. The importer shall also remit by Demand Draft, registration charges to the corporation calculated at 1% of the cif value of the purchase, along with the intimation of import purchase.

4. The Corporation will register the contract within seven days from the date of its receipt from the importer together with a letter of authority which will indicate the quantity to be cleared by the importer. The Customs authorities will allow clearance of the goods on the strength of such letter of authority.

5. In respect of the raw cashewnuts imported by the Cashew Corporation of India Limited on its own account, the Cashew Corporation of India Limited will be free to offer the quantities to the Actual Users.

P. C. JAIN, Chief Controller of Imports and Exports